

तुरंत रिलीज के लिए

फायर मास्टर प्लान, विविध और विकासशील समुदाय की जरूरतों पर ध्यान देता है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 सितम्बर, 2020) – आज, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, [ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज \(बी.एफ.ई.एस.\) 2021-2025 फायर मास्टर प्लान \(Brampton Fire and Emergency Services \(BFES\) 2021-2025 Fire Master Plan\)](#) को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इसमें, ब्रैम्पटन में अब और भविष्य में, आग से सुरक्षा की लगातार प्रभावी और कुशल सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए 32 सिफारिशें हैं। बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान (BFES Fire Master Plan), [2018-2022 टर्म ऑफ काउंसिल प्रियोरटीज \(2018 – 2022 Term of Council Priorities\)](#) की उपलब्धि में योगदान देता है।

कैनेडा के दूसरे सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले शहर के तौर पर, ब्रैम्पटन की बेजोड़ जरूरतें हैं। बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान के विकास के बारे में, 2,000 से अधिक निवासियों, 200 तक के फ्रंट-लाइन स्टाफ, सिटी के कई विभागों और बी.एफ.ई.एस. की मैनेजमेंट टीम सहित, अंदरूनी और बाहरी स्टेकहोल्डर्स द्वारा सूचित किया गया था। इसके अलावा, समुदाय संबंधी व्यापक जोखिम मूल्यांकन, स्टेशन की जगह के अपडेट किए गए अध्ययन और कानून के कई तथ्यों ने, बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान को प्रभावित किया है।

इस बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान का मार्गदर्शन, तीन बेहद महत्वपूर्ण विषयों: *सुरक्षित, सफल और स्थिर* के साथ किया गया है। ये विषय, परामर्शों और इससे जुड़ी पहलकदमियों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जिन्हें ध्यान देने की जरूरत वाले नौ क्षेत्रों: एमरजेंसी प्रतिक्रिया; आग से सुरक्षा और शिक्षा; एमरजेंसी मैनेजमेंट; सामुदायिक सुरक्षा; समानता व समावेश; टेक्नोलॉजी संबंधी नवीनता; सशक्त कार्यबल; सुशासन; और वातावरण संबंधी स्थिरता में संगठित किया गया है।

प्लान की मुख्य कार्रवाईयों में शामिल हैं:

- तीन नए फायर स्टेशनों का निर्माण करना, जो सिटी की वृद्धि को गतिशील रखने के लिए, अगले दस वर्षों तक तैयार किए जाने हैं;
- अधिक जोखिम वाली इमारतों के लिए अनुपालन की संस्कृति तैयार करने के लिए, गगनचुंबी, कम ऊंची और चुनिंदा इमारतों के लिए, बड़ी हुई नियमित जांच संबंधी प्रोग्राम लागू करना;
- यह अनुमान लगाने के लिए कि कहां आग लगने की सबसे अधिक संभावना है, नए मशीन प्रशिक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धि) तकनीक का लाभ उठाना, ताकि आग लगने की संभावना और परिमाण को कम करने के लिए, लक्षित अग्रसक्रिय जांचें की जा सकें;
- सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदाय पर बेहतर ध्यान देने के लिए, नवीन भर्ती संबंधी युक्तियां लागू करने पर ठोस फोकस के साथ, विभाग की विविधता, समानता और समावेश के प्रयासों को बढ़ाना।

आग से सुरक्षा संबंधी सेवाओं की अधिक से अधिक संभव, उच्च स्तर की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए समय बीतने पर, बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान विकसित होता जाएगा। पूरा बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान पढ़ने के लिए, www.bramptonfire.com पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज एक प्रमुख, नवीन फायर सर्विस है, और बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान, हमारे विकासशील और शानदार रूप से विविध शहर की, अब की और भविष्य की बेजोड़ जरूरतों की हिमायत करता है। बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान के विकास के साथ, हमारी टीम यह सुनिश्चित करना जारी रख सकती है कि ब्रैम्पटन एक अच्छी-तरह से संचालित शहर है और यह एमरजेंसी मैनेजमेंट और प्रतिक्रिया में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज टीम, ब्रैम्पटन को स्वस्थ और सुरक्षित समुदाय बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान यह सुनिश्चित करता है कि हमारे निवासियों को आज और भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए, हमारे पास अच्छी तरह से सुनियोजित दृष्टिकोण है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जैसे-जैसे हमारी विविध सिटी में वृद्धि होती है, हमारी टीम को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं, लगातार मूल्यांकन करने और विकसित होने की जरूरत होती है। हमारा बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान, उस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेगा। मुझे इस व्यापक प्लान पर किए गए काम पर गर्व है। मुझे विशेषकर, ऐसी टीम तैयार करने पर काम करने की प्रतिबद्धता के लिए पहली फायर सर्विसिज में से एक होने पर गर्व है, जो उस विविध समुदाय के प्रति विचारशील है।”

- बिल बोइस (Bill Boyes), फायर चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज

“हम हमेशा सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारी सिटी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, बी.एफ.ई.एस. फायर मास्टर प्लान, सुनिश्चित करता है कि हम ब्रैम्पटन में रहने, काम करने, पढ़ने और खेलने वालों के लिए, प्रगतिशील फायर एंड एमरजेंसी सेवाएं प्रदान करके, इस वृद्धि को सहयोग करने के लिए तैयार हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे



Media Release

बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca